

तुरंत रिलीज के लिए

## 2022/2023 परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन सीजन की घोषणा की जा रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (18 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अपने 2022/2023 परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन (2022/2023 Performing Arts Brampton) सीजन की घोषणा करने के लिए उत्साहित है, जिसमें हर किसी के लिए आनंद लेने हेतु, लाइव म्यूजिक, कॉमेडी और थिएटरीकल मनोरंजन होगा। इसमें दो बड़ी सीरीज, *परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन प्रेजेंट्स (Performing Arts Brampton Presents)* और *दिस इज ब्रैम्पटन (This is Brampton)* शामिल हैं, दर्शक सिटी की सभी चार परफॉर्मिंग आर्ट्स जगहों पर प्रोडक्शन्स का अनुभव करेंगे – द रोज़ (The Rose), एल.बी.पी. थिएटर (LBP Theatre), सिरिल क्लार्क थिएटर (Cyril Clark Theatre) और गार्डन सक्वेयर (Garden Square)।

इस सीजन, *परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन प्रेजेंट्स* में प्रसिद्ध संगीतकारों, कैंनेडा की प्रसिद्ध हस्तियों, कॉमेडी के सितारों और दुनियाभर में मशहूर थिएटर और रंगभूमि कलाकारों को पेश किया जा रहा है, इनमें शामिल हैं:

- रेड राइडर (Red Rider) के साथ टॉम कोकरेन (Tom Cochrane)
- किंकी बूट्स (Kinky Boots)
- द टेनर्स (The Tenors)
- जेक्स गिफ्ट (Jake's Gift)
- जॉनी रीड (Johnny Reid), लव समवन टूर (Love Someone Tour)
- वनेसा विलियम्स (Vanessa Williams)
- एन ऑफ ग्रीन गेब्लस (Anne of Green Gables), कैंनेडाज बैलेट जोर्गेन (Canada's Ballet Jörgen) के द्वारा पेश किया जा रहा है
- एनिमल (Animal), सर्क अल्फोंस (Cirque Alfonse) के द्वारा पेश किया जा रहा है
- सेरेना राइडर (Serena Ryder)
- शॉन मजूमदार (Shaun Majumder), लव टूर (Love Tour)
- द ओरिजिनल वेलर्स (The Original Wailers)
- जान आर्डन (Jann Arden)
- पैडिंग्टन गेट्स इन ए जैम (Paddington Gets in a Jam)
- रॉबर्ट क्रे (Robert Cray)
- पॉल रीजर (Paul Reiser)
- द अगली डकलिंग (The Ugly Duckling), लाइववायर थिएटर (Lightwire Theater) के द्वारा बनाया गया
- बिग रेक (Big Wreck)

- जस्ट फॉर लाफ्स (Just for Laughs)
- तथा और भी बहुत कुछ!

परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन, लोकल कलाकारों को उजागर करने और कम्युनिटी संगठनों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ब्रैम्पटन की प्रतिभा को प्रकट, विकसित किया और उसका जशन मनाया जाए। सह-पेशकारी साझेदारों में शामिल हैं, द रोज ऑर्केस्ट्रा (The Rose Orchestra), ब्रैम्पटन कोन्सर्ट बैंड (Brampton Concert Band) और ब्रैम्पटन म्यूजिक थिएटर (Brampton Music Theatre)।

*दिस इज ब्रैम्पटन*, द रोज में स्टूडियो II (Studio II) में फिर हो रहा है, यह ब्रैम्पटन की शानदार प्रतिभा के लिए निजी और अप-क्लोज प्लेटफॉर्म के साथ-साथ कलात्मक विकास के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। सीरीज के क्यूरेटर्स में शामिल हैं, बी-जैज़ड (B-Jazzed), ऑफ द रिकॉर्ड, स्टैंड-अप स्टिचस (Stand-Up Stitches), शॉनड्राइव रिकॉर्ड्स (SounDrive Records), स्पेड्स मीडिया (Spades Media), क्रेट क्लैश (Crate Clash), QueeriAH!city, हाइप (HYPE) और ब्लूबर्ड ब्रैम्पटन (Bluebird Brampton)।

चूंकि हम लगातार कोविड-19 (COVID-19) महामारी से बाहर निकल रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन, लाइव मनोरंजन को सबके लिए किफायती और सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कई तरह के शोज के लिए टिकट की कीमतें कम करके केवल 20 डॉलर तक कर दी गई हैं।

2022/2023 के सीजन के लिए टिकटों की बिक्री, रोज़ मेम्बर्स के लिए 26 मई से और पब्लिक के लिए 10 जून से शुरू हो रही है। संपूर्ण शेड्यूल देखने, टिकटें खरीदने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, [therosebrampton.ca](http://therosebrampton.ca) पर जाएं या बॉक्स ऑफिस (Box Office) को 905.874.2800 पर फोन करें।

*परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन हमारे 2022-2023 के सीजन के प्रायोजकों (स्पॉंसर्स) का बेहद शुक्रगुजार हैं: 45 रेलरोड, अल्गोमा यूनिवर्सिटी (45 Railroad, Algoma University), फील्डगेट डेवेलपमेंट्स (Fieldgate Developments), मेरिडियन क्रेडिट यूनियन (Meridian Credit Union), और नॉर्थवेस्ट लेक्सस (Northwest Lexus)।*

### गार्डन स्कवेयर के कार्यक्रम

डाउनटाउन ब्रैम्पटन के केंद्र में कला, संस्कृति और कम्युनिटी का अनुभव पाएं। गार्डन स्कवेयर में पूरी गर्मी मुफ्त मनोरंजन का आनंद लें, इसमें शामिल है, 16 जून से शुरू होने वाली थर्सडे नाइट मूवीज (Thursday Night Movies), पॉप-अप एक्टिवेशन्स, फेस्टिवल्स और खास कार्यक्रम।

- 19 जून: प्राइड 2022 (Pride 2022), टी.डी. (TD) के द्वारा पेश किया जा रहा है
- 9 जुलाई: 8<sup>वीं</sup> एनुअल ईस्ट कोस्ट किचन पार्टी (8<sup>th</sup> Annual East Coast Kitchen Party)
- 22 और 23 जुलाई: वाइब्रेंट ब्रैम्पटन (Vibrant Brampton)
- 31 जुलाई: JAMBANA™ वन वर्ल्ड फेस्टिवल (JAMBANA™ One World Festival)

- 13 अगस्त: स्टॉप एन स्टैंपीड (Stomp 'N Stampede)
- 30 सितम्बर: नैशनल डे फॉर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन (National Day for Truth and Reconciliation); एक आउटडोर कोन्सर्ट, जो जूनो (JUNO) अवॉर्ड विजेता इंडीजीन्स प्रॉग-रॉक जोड़ी, क्राउन लैंड्स (Crown Lands) को पेश करता है

गार्डन सक्वेयर के गर्मी के सीजन की हिमायत, उदारतापूर्वक, नो फ्रिल्स (No Frills), टी.डी. (TD), टिम हॉर्टन्स (Tim Hortons) और टोरॉंटो पियर्सन (Toronto Pearson) के द्वारा की गई है।

## हवाले

“परफॉर्मिंग आर्ट्स ब्रैम्पटन, हमारे शहर में शानदार जगहों पर काम करता है और वे मनोरंजन से भरपूर एक और सीजन ला रहे हैं, जिसका पूरा परिवार आनंद ले सकता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में लोगों को इकट्ठा लाने की ताकत है और चूंकि हम व्यक्तिगत कार्यक्रम दुबारा शुरू कर रहे हैं, बहुत-सी परफॉर्मेंसेज का होना काफी मजेदार है। अपना पसंसीदा शो ढूंढें और आज ही अपनी टिकटें लें!”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“मैं 2022/2023 के सीजन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम देखने और लाइव परफॉर्मेंसेज के वर्ष में दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करने के लिए उत्साहित हूँ। ब्रैम्पटन एक मोजैक है, जहां हम कला, संस्कृति और मनोरंजन का जशन मनाते हैं और मैं शो देखने के लिए बेहद उत्साहित हूँ।”

- हरकीरत सिंह (Harkirat Singh), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, कार्पोरेट सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“लगभग दो वर्षों बाद, मैं ब्रैम्पटन में प्रोग्रामिंग के पूरे सीजन को एक बार फिर होते देखने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की परफॉर्मिंग आर्ट्स टीम ने, कॉमेडी, म्युजिक, ड्रामा आदि से भरपूर सीजन तैयार करने में शानदार काम किया है, जो थिएटर जाने वाले हर उम्र के लोगों को आकर्षित करता है।”

- पॉल मॉरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“अंतर्राष्ट्रीय और कैनैडा के परफॉर्मर्स के साथ-साथ, हमारा 2022-23 का सीजन ब्रैम्पटन के कलाकारों की अधिक परफॉर्मेंसेज पेश करता है, ब्रैम्पटन के कला संगठनों के साथ साझेदारियों को अधिक मज़बूत बनाता है, हमारे मंचों पर खुद को प्रकट होते देखने के लिए अधिक अवसर, दर्शकों के लिए और ब्रैम्पटन के खूबसूरत मोजैक को देखने के लिए, हमारे मंचों पर कलाकारों के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है।”

- स्टीवन शिप्पर (Steven Schipper), एग्जीक्यूटिव आर्टिस्टिक डायरेक्टर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में परफॉर्मिंग आर्ट्स डिवीजन, कलात्मक श्रेष्ठता और गहरी कम्युनिटी भागीदारी की अपनी कोशिश के द्वारा, ब्रैम्पटन की बेजोड़ सांस्कृतिक पहचान और रचनात्मक जोश को प्रकट, विकसित और इसका प्रचार करती है। डिवीजन, ब्रैम्पटन में चार जगहों को संचालित करती है: द रोज़, एल.बी.पी. थिएटर, सिरिल क्लार्क थिएटर और गार्डन सक्वेयर। [अधिक जानकारी प्राप्त करें \(Learn more\)](#)।

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)